



MANAGED
TRAINING
SERVICES

Corporate Office:
Infocity, A-24, Sector 34
Gurugram 122 001, Haryana, India
Tel: +91 (124) 4916500
www.niitmts.com
Email: info@niitmts.com

February 01, 2024

**The Manager
BSE Limited**

Corporate Relationship Department,
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

**The Manager
National Stock Exchange of India Limited**

Listing Department,
Exchange Plaza,
5th Floor, Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051

Subject: Submission of copies of newspaper advertisements for publication of extracts of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2023

Scrip Code: BSE - 543952; NSE - NIITMTS

Dear Sir,

Enclosed herewith please find copies of the newspaper advertisements of February 01, 2024 (Financial Express and Jansatta) for publication of extracts of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2023.

This is for your information and records.

Thanking you,
Yours sincerely,
For **NIIT Learning Systems Limited**

Deepak Bansal
**Company Secretary &
Compliance Officer**

Encls: a/a

NIIT Learning Systems Limited

(Formerly MindChampion Learning Systems Limited)

Registered Office: Plot No. 85, Sector 32, Institutional Area,
Gurugram 122 001, Haryana, India | Tel: +91 (124) 4293000 | CIN: L72200HR 2001 PLC 099478

STATE BANK OF INDIA
PREMISES & ESTATE DEPARTMENT
LHO MUMBAI METRO
 3rd Floor, State Bank of India, Local Head Office, Synergy Building, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400 051

TENDER ID: MUM 20240201

NOTICE FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR DESIGN COMPETITION FOR SELECTION AND ENGAGEMENT OF ARCHITECTURAL AND PROJECT MANAGEMENT CONSULTANCY FIRM (APMCF) FOR PROPOSED CONSTRUCTION OF NALASOPARA (W) BRANCH BUILDING AND RESIDENTIAL TOWERS FOR AWARD STAFF ON THE BANK'S PLOT AT VRUNDAVAN, NALASOPARA (W) MUMBAI

State Bank of India, invite Expression of interest (EOI) from reputed and experienced Architectural Firms / Individual for participating in the Design Competition for selection and engagement of Architectural and project management consultancy firm (APMCF) to render Architectural and Project Management Consultancy Services for the Proposed Construction of Nalasopara (W) Branch building and 3 Residential towers for Award staff at Vrundavan, Nalasopara (W) Mumbai for State Bank of India.

The prequalification / eligibility criteria, scope of the services to be rendered, terms and conditions of appointment and prescribed formats for submission of application can be downloaded from Bank's website <https://bank.sbi> under procurement news (<https://bank.sbi/web/sbi-in-the-news/procurement-news>) from 01/02/2024 to 21/02/2024 upto 15.00 Hrs.

Interested Architectural Firms having PMC experience, complying prescribed eligibility criteria may submit their applications in the prescribed format with supporting documents online on e-tender portal - <https://etender.sbi> in addition to submission of the same in hard copy at this office latest by 15.00 hrs on 21/02/2024. Application received after due date and time will not be entertained. SBI reserves its right to accept or reject all the applications without assigning reasons therefor and no further correspondence shall be entertained in this regard.

Assistant General Manger (P&E)

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

Tender No: T No.194/2023-24/SE/Q

Rebuild-WSS to Neduvathoor panchayat and Kottarakkara Municipality in Kollam district- Phase I- Implementation of production components- design, construction and commissioning of 16 MLD WTP at Ugrankunnu, EMD : Rs. 500000.

Tender fee : Rs. 16540+2978. Last Date for submitting Tender : 29-02-2024 02:00:pm Phone : 04742745293, Website : www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in

Superintending Engineer PH Circle Kollam

KWA-JB-GL-6-2241-2023-24

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

Tender No: T No.194/2023-24/SE/Q

(JUM) - CWSS to Karimba, Kongad and Mundur GP - Re Te No. 80) Design, Construction and maintenance of 13 LL OHSR at Parakkal in Karimba PI providing Booster pump house for Kongad zone including laying of pipeline in Karimba, Kongad and Mundur PIs and LSGD road restoration. Re Te No. 81) Package - 2 Laying CWP from WTP to OHSR at Parakkal for Karimba Zone, Supply and erection of CW pump sets, balance laying of 200 mm DI K9 pipe and LSGD road restoration. Re Te No. 82) CWSS to Peruvembu - Design, Construction and maintenance of 7.00 LL & 3.50 LL OHSRs, supplying, laying of distribution network, renovation of intake well cum raw water pump house, WTP and Providing FHTCs. EMD : Rs. 2,00,000/- & 5,00,000/-

Tender fee : Rs. 11025, 16540 & 16540, Last Date for submitting Tender : 14-02-2024 03:00:am Phone : 0491 2544927, Website : www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in

Superintending Engineer PH Circle Palakkad

KWA-JB-GL-6-2236-2023-24

IDFC
IDFC Limited

Registered Office: 4th Floor, Capitale Tower, 555 Anna Salai, Thiru Vi Ka Kudiyliruppu, Teynampet, Chennai - 600018, Tamil Nadu.
 Corporate Office: 906/907, 9th Floor, Embassy Centre, Jammalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021.
 CIN No.: L65191TN1997PLC037415

STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	For the quarter ended			For the nine months ended		For the year ended
		December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023
		Unaudited (See note 4)	Unaudited	Unaudited (See note 4)	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total revenue from operations	(7.65)	36.67	29.73	55.77	101.23	153.83
2	Net Profit before Tax, Exceptional and Extraordinary items	(12.69)	30.63	25.25	33.20	95.36	90.56
3	Net Profit before Tax and after Exceptional and Extraordinary items and after share of profit / (loss) of Associates	204.82	230.16	254.56	702.87	801.04	1064.74
4	Net Profit after Tax, Exceptional and Extraordinary items	210.04	223.54	272.06	697.73	856.52	4243.93
5	Total Comprehensive Income	243.22	228.06	296.99	739.75	850.79	4283.14
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value ₹10 per share)	1599.99	1599.99	1599.22	1599.99	1599.22	1599.99
7	Reserves excluding Revaluation Reserves as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	9997.21 (as on 31.03.2023)					
8	Earnings Per Share for the period (Face value ₹10 per share) (for continuing and discontinued operations) - not annualized						
	- Basic (₹)	1.31	1.40	1.70	4.36	5.36	26.56
	- Diluted (₹)	1.31	1.40	1.70	4.36	5.36	26.56

Notes:

- The financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) and SEBI circular dated 5th July, 2016.
- The above is an extract of the detailed format of the quarter and year ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarter and year ended Financial Results are available on the Company's website (www.idfclimited.com) and on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com).
- The specified items of the standalone financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2023 are given below:

Particulars	For the quarter ended			For the nine months ended		For the year ended
	December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023
	Unaudited (See note 4)	Unaudited	Unaudited (See note 4)	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income	(11.71)	33.17	29.13	44.29	278.64	2,076.00
Profit / (loss) before tax	(16.80)	28.27	25.03	26.96	268.82	2,053.37
Profit / (loss) after tax	(10.72)	21.65	22.34	22.67	248.01	2,029.10
Total comprehensive income for the period	(10.84)	21.42	22.30	22.30	247.88	2,029.00

4 The figures for the quarter ended December 31, 2023 and December 31, 2022 are the balancing figures between reviewed figures for the nine months ended December 31, 2023 and December 31, 2022 and half year ended September 30, 2023 and September 30, 2022 respectively.

5 The aforesaid consolidated financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on January 31, 2024.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF IDFC LIMITED
 Sd/-
Mahendra N. Shah
 Managing Director

Place: Mumbai
 Date: January 31, 2024

Adfactors 547

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR VYSALI PHARMACEUTICALS LIMITED OPERATING IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY AT COCHIN, KERALA (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

Sr. No.	Name of the corporate debtor along with PAN/ CIN/ LLP No.	Name - Vysali Pharmaceuticals Limited PAN - AAACV5491P CIN - U24231KL1979PLC003112
2.	Address of the registered office	IX639, Vysali Road, Edathala P.O, Ernakulam, Kerala, India. 683561
3.	URL of website	Nil
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	IX639, Vysali Road, Edathala P.O, Ernakulam, Kerala, India. 683561
5.	Installed capacity of main products/ services	Details available at https://kkjoserp.com/vysali/
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	Injections sold 10,37,245 units amounting to Rs.1,84,68,904/-
7.	Number of employees / Number of workmen	Number of employees 16 Number of workmen - 13
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	https://kkjoserp.com/vysali/
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(b) of the Code is available at	https://kkjoserp.com/vysali/
10.	Last date for receipt of expression of interest	15-02-2024
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	25-02-2024
12.	Last date for submission of objections to provisional list	01-03-2024
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	11-03-2024
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	01-03-2024
15.	Last date for submission of resolution plans	31-03-2024
16.	Process email id to submit EOI	vysalirp@gmail.com

Mr. Kizhakkakara Kuniakose Jose (IP Regn. No. IBB/IPA-001/IP-P00445/2017-2018/10788) RP for Vysali Pharmaceuticals LTD Address for Correspondence: KK Jose & Associates, Yenvee Complex, Temple Road, Aluva, Kerala, 683101 Email ID for all correspondence related to this company - vysalirp@gmail.com

PANABYTE TECHNOLOGIES LIMITED
 (Formerly Known as Panache Innovations Limited)
 CIN : L51100MH1981PLC312742

Regd. & Corp off : Office No. 105, Primus Business Park, Plot No A-195, Road No. 16/A Ambika Nagar No. 2, Wagle Industrial Estate, Thane - 400604, Maharashtra, India
 Mob : +91 8291529934 | Website : www.panabyte.com
 Email : info@panachemodera.com

Extract of Unaudited Financial results for Quarter and nine months ended 31st December, 2023

Rs. in Lakhs except data per share

Sl. No.	Particulars	Current Quarter ending	Year to Date	Corresponding 3 months ended in the previous year
		31-Dec-23	31-Dec-23	31-Dec-22
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	95.55	241.20	92.75
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(18.61)	(68.02)	(27.08)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items#)	(18.61)	(68.02)	(27.08)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(10.38)	(54.38)	(20.40)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(10.38)	(54.38)	(20.40)
6	Equity Share Capital	439.00	439.00	439.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(13.23)	(13.23)	(13.23)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1) Basic :	(0.24)	(1.24)	(0.46)
	2) Diluted :	(0.24)	(1.24)	(0.46)

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity at www.bseindia.com and www.panabyte.com
- The above results were reviewed by the Audit Committee and there after taken on record by the Board in its meeting held on 30th January, 2024. The statutory auditors have issued Limited Review Report.

For Panabyte Technologies Limited
 (Formerly known as Panache Innovations Limited)
 Sd/-
Praakash Vichhivora
 Chairman & Managing Director
 DIN - 03123043

Date : 30.01.2024
 Place : Mumbai

LTIMindtree
LTIMindtree Limited
 (Formerly Larsen & Toubro Infotech Limited)
 CIN: L27900MH1996PLC104693

Registered Office: L&T House, Ballard Estate, Mumbai-400 001, India
 Tel No: +91 22 6776 6776; Fax No: +91 22 2858 1130
 E-mail: investor@ltimindtree.com, Website: www.ltimindtree.com

NOTICE
TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the Rules), the Company shall transfer the shares in respect of which dividend has not been claimed for seven consecutive years or more, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

In terms of the Rules, the Third Interim Dividend for the financial year 2016-17 declared by Mindtree Limited (now merged with LTIMindtree Limited w.e.f. November 14, 2022) on March 27, 2017, which remains unclaimed for a period of seven years, and the shares of the Company (i.e. shares of LTIMindtree Limited allotted in lieu of shareholding in Mindtree Limited) in respect of which dividend has not been claimed for the past seven consecutive years, are due to be credited in favour of IEPF on May 02, 2024.

The Company has communicated individually to the concerned members whose shares are liable to be transferred to IEPF. The Company has also uploaded details of the members whose shares are liable to be transferred to IEPF, under the Investor Section on the website www.ltimindtree.com

The concerned members are requested to claim the Third Interim Dividend declared for financial year 2016-17 and onwards, on or before **May 02, 2024**, in order to avoid their dividend amount/shares being transferred to IEPF.

Members may kindly note that no claim shall lie against the Company in respect of the shares and the unclaimed dividend credited to the account of IEPF. However, members may claim the same by making an application to IEPF as per the procedure outlined in the Rules.

In case members have any query on the above matter, they may contact the Company's Registrar & Transfer Agent, Link Intime India Private Limited, Unit: LTIMindtree Limited, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (W), Mumbai-400083 T-022-49186000 Email: rlt.helpdesk@linkintime.co.in.

For LTIMindtree Limited
 Sd/-
Angna Arora
 Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
 Date: January 31, 2024

NIIT LEARNING SYSTEMS LIMITED
 (Formerly Known as Mindchampion Learning Systems Limited)
 Regd Office: Plot No. 85, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram - 122001 (Haryana) India
 Tel : +91 (124) 4293000 Fax : +91 (124) 4293333 Website: <http://www.niitmts.com> Email : investors@niitmts.com
 Corporate Identity Number: L72200HR2001PLC099478

Extract of Unaudited Financial Results for the quarter and year to date ended December 31, 2023

(Rs. in Millions, except per share data)

S. No.	Particulars	Consolidated						Standalone					
		Quarter ended			Period ended			Quarter ended			Period ended		
		3 months ended December 31, 2023	Preceding 3 months ended September 30, 2023	Corresponding 3 months ended December 31, 2022	Year to date figures for the current period ended December 31, 2023	Year to date figures for the previous period ended December 31, 2022	Previous year ended March 31, 2023	3 months ended December 31, 2023	Preceding 3 months ended September 30, 2023	Corresponding 3 months ended December 31, 2022	Year to date figures for the current period ended December 31, 2023	Year to date figures for the previous period ended December 31, 2022	Previous year ended March 31, 2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited (Refer note 4 and 5)	Unaudited (Refer note 4)	Unaudited (Refer note 4 and 5)	Audited (Refer note 4)	Unaudited	Unaudited	Unaudited (Refer note 4)	Unaudited (Refer note 4)	Unaudited (Refer note 4)	Audited (Refer note 4)
1	Total Income from Operations	3,913.24	3,819.27	3,632.96	11,555.95	9,761.03	13,617.87	1,012.26	953.50	1,102.11	2,925.13	2,994.95	4,037.75
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	775.60	716.77	672.59	2,184.07	1,792.17	2,470.79	563.55	189.70	306.46	953.23	741.57	1,018.08
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	775.60	673.62	565.65	2,132.27	1,636.32	2,284.87	563.55	184.68	303.86	939.56	731.55	982.27
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	567.52	468.81	460.38	1,588.05	1,383.02	1,922.17	507.95	138.80	292.46	793.99	722.97	992.63
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	634.75	457.68	565.10	1,698.26	1,497.70	2,053.34	497.42	158.39	278.26	819.29	704.86	1,000.22
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 each, fully paid)	270.06	269.24	269.06	270.06	269.06	269.14	270.06	269.24	269.06	270.06	269.06	269.14
7	Reserves excluding revaluation reserves						7,433.74						4,647.91
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised, in Rs.)												
	- Basic	4.21	3.48	3.42	11.79	10.30	14.31	3.77	1.03	2.17	5.90	5.39	7.39
	- Diluted	4.04	3.34	3.36	11.34	10.04	13.97	3.61	0.99	2.14	5.67	5.25	7.22

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly / year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of the quarterly / year to date Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website, www.niitmts.com.
- The above results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on January 31, 2024.
- Total Income from Operations represent revenue from operations.
- The National Company Law Tribunal (NCLT), Chandigarh Bench vide Order dated May 19, 2023 sanctioned the Composite Scheme of Arrangement (Approved by the board of directors of the Company on January 28, 2022). The Scheme became effective on May 24, 2023 upon filing of the certified copies of the NCLT order, sanctioning the Scheme with the respective jurisdictional Registrar of Companies. Pursuant to the Scheme becoming effective, the CLG Business Undertaking is demerged from NIIT Limited ("NIIT") and transferred to and vested in NIIT Learning Systems Limited ("NLSL") with effect from April 1, 2022 i.e. the Appointed Date. NIIT has transferred specific income, expenses, assets, liabilities and reserves of CLG Business Undertaking w.e.f. Appointed Date till Effective Date based on the allocation as prescribed in the Scheme and with respect to common items, the allocations are approved by the Board. Pursuant to the Scheme, NLSL has issued and allotted equity shares to the shareholders of NIIT whose name appeared in the register of members of NIIT as on the record date i.e. June 8, 2023, one equity share of Rs. 2/- each in NLSL as fully paid up for every equity share of Rs. 2/- each held by them in NIIT.
- During the previous year, NIIT (USA), Inc, a wholly owned subsidiary company of NIIT Learning Systems Limited had acquired 100% membership interest in St. Charles Consulting Group LLC ("St. Charles") on November 04, 2022 and executed Membership Interest Purchase Agreement ("MIPA") and other definitive agreements ("Transaction Documents"). Accordingly, the results of the current quarter/period ended December 31, 2023 are not comparable with the corresponding quarter/period ended December 31, 2022

By order of the Board
 For NIIT Learning Systems Limited
 Sd/-
Vijay K Thadani
 Vice-Chairman & Managing Director

Place: Gurugram
 Date : January 31, 2024

वैभव ग्लोबल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: के-6वीं, फ्लोर टीका, आदर्श नगर, नया दिल्ली-110024
फोन: 91-141-2601020; CIN: L36911RJ1989PLC004945

इंडियन रेलवे कोटिंग एण्ड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आईआरसीटीसी गिन्सलिखित के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है:
1. खुली ई-निविदा: आईआरसीटीसी/आरएन/अभ्यर्चना/सौकरिता/2023/2 - नई रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद

बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
www.bankofbaroda.in
ई-नीलामी सह विक्री सूचना
बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक के स्वामित्व वाले वाहनो को 'जड़ है', जैसा है' के आधार पर ई-नीलामी सह विक्री के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है:

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank
शहर प्रभाग
प्रधान कार्यालय: प्लॉट सं. 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
सार्वजनिक सूचना
स्विस चौलेंज विधि के अंतर्गत एआरसी/एनएआरसी/अनुमत अंतरियों (ट्रांसफर) को वित्तीय अस्तित्वा का हस्तांतरण

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED
Registered Office: Plot No.1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi - 110070
CIN: L34109DL1981PLC011375; Website: www.marutisuzuki.com; E-mail: investor@maruti.co.in; Phone: +91-11-46781000; Fax: +91-11-46150275/76

Table with 7 columns: Sr. No, Particulars, Quarter ended (December 31, 2023, September 30, 2023, December 31, 2022), Nine months ended (December 31, 2023, December 31, 2022), Year ended (March 31, 2023). Rows include Total Income from Operations, Net Profit/Loss, Equity Share Capital, etc.

Table with 7 columns: Sr. No, Particulars, Quarter ended (December 31, 2023, September 30, 2023, December 31, 2022), Nine months ended (December 31, 2023, December 31, 2022), Year ended (March 31, 2023). Rows include Total Income from Operations, Net Profit/Loss, Equity Share Capital, etc.

Note: The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on Company's website at www.marutisuzuki.com.

केनरा बैंक Canara Bank
वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिनिधिकरण एवं पुनर्निर्णय तत्वा प्रतिक्रिया प्रवर्तन अधिनियम 2002 व प्रतिनिधि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 व प्रतिनिधि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के अंतर्गत अवल संपत्ति की विक्री के लिए ई-नीलामी विक्री सूचना

NIIT LEARNING SYSTEMS LIMITED
(Formerly Known as Mindchampion Learning Systems Limited)
Regd Office: Plot No. 85, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram - 122001 (Haryana) India
Tel: +91 (124) 4293000 Fax: +91 (124) 4293333 Website: http://www.niitlms.com Email: investors@niitlms.com
Corporate Identity Number: L72200HR2001PLC099478
Extract of Unaudited Financial Results for the quarter and year to date ended December 31, 2023